

भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान,
ICAR-Central Soil Salinity Research Institute, Karnal
काछवा रोड, ज़रीफा फार्म, करनाल-132 001 (हरियाणा)

चल-साक्षात्कार (Walk-in-Interview)

एक सीनियर रिसर्च फ़ैलो विशुद्ध अनुबंध के आधार पर प्रोजेक्ट में इस संस्थान में लगाया जाना है जिसकी शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अनुबंध, शर्तों की जानकारी केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान संस्थान की वेबसाइट www.cssri.org पर उपलब्ध है। इच्छुक उम्मीदवार को अपने आवेदन सभी दस्तावेजों सहित साक्षात्कार के दिन दिनांक 14.03.2018 (बुधवार) प्रातः 09:30 बजे सहायक प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना- I), केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल के पास जमा कराने होंगे।

अश्विषेक श्रीवास्तव

21-02-18
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

0184-2209303

भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल
ICAR-CENTRAL SOIL SALINITY RESEARCH INSTITUTE, KARNAL

Dated: 21.02.2018

A walk-in-interview for position of **ONE** (1) Senior Research Fellows in below mentioned projects will be conducted at this Institute on 14.03.2018 (Wednesday) at 09:30 AM on contractual basis, which is co-terminus with the projects. The eligible candidates are invited to appear before the Selection Committee for walk-in-interview at ICAR-CSSRI, Karnal.

Name of the Project	:	Network Project on Transgenic in Crops (NPTC). Salinity tolerance in rice
Name of the Post	:	Senior Research Fellow (One)
Qualifications	:	Essential: Master's degree in Genetics and Plant Breeding/Bio-technology/Molecular Biology/Genetics/Biochemistry/Botany or equivalent with 4 years/5 years of Bachelor's degree or Candidates having post graduate degree in Basic Sciences with 3 years Bachelor's degree should have NET qualification. Desirable: Working experience on molecular tools in crop plants and Experience of working in breeding for salt tolerance in crop plants.
Remuneration	:	Rs. 25,000/- + HRA as per rules.
Age	:	Below 35/40 years for men/women candidates Relaxation for SC/ST by 5 years and 3 years for OBC Candidates.
Sanctioned upto	:	March, 2020

APPLICATION FORM No. 1

Network Project on Transgenic in Crops (NPTC), Salinity tolerance in rice.

1. Name of the post applied for: **Senior Research Fellow (one)**

2. Name of the applicant:

3. Father's/Husband's Name:

4. Address for correspondence:

5. Phone No. (Res./Mobile)/Email:

6. Nationality:

7. Date of Birth:

8. Category:

9. **Details of Educational Qualification(s):- (10th onwards)**

S. No.	Educational Qualification(s)	Year of Passing	% of Marks	Division	Institute from which degree/certificate obtained

10. **Details of Experience:-**

S.No.	Name of Organization	Job Description	Period		Reasons for leaving
			From	To	

11. **Details of testimonials attached:-**

i)

iii)

ii)

iv)

Declaration

I hereby certify that the information/testimonials provided above is true to the best of my knowledge and in case any facts/testimonials are found to be false or incorrect or suspect, I shall be liable to be terminated from my employment for which I have applied.

Date:

Place:

Signature of the applicant

Paste here a
recent passport
size photograph